

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 619]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 19 नवम्बर 2018—कार्तिक 28, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2018

फा. क्रमांक 5114-2018-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, प्रदेश के सतना जिले से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रेषित संलग्न सूची के अनुसार विधान सभा निर्वाचन 2018 के लिये सेक्टर आफिसर/जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त अधिकारियों को विधान सभा निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संतोष प्रसाद शुक्ल, अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला सतना, मध्यप्रदेश

क्रमांक 3411-ई. एस.-15-25-निर्वा.-सेक्टर-2018

सतना, दिनांक 12 नवम्बर 2018

### विधानसभा निर्वाचन 2018

विशेष कार्यपालन दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने बावत् प्रस्ताव

जिले का नाम :- सतना

क०	अधिकारी का नाम , पदनाम एवं विभाग	सेवा संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिये विशेष कार्यपालन दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।		मोबाइल नम्बर
			विधानसभा क्षेत्र क०	सेक्टर क्रमांक	
1	2	3	4	5	6
1	श्री यशवंत सिंह, प्रभारी अनु०अधि० लोनि०वि० मझगवां ,	राजपत्रित अधिकारी	61 चित्रकूट	1	9425426458
2	डा० एस० के० चतुर्वेदी, एसो०प्रोफेसर मा०चि० ग०वि०वि० चित्रकूट,	राजपत्रित अधिकारी	61 चित्रकूट	2	8009893054, 9450607094
3	डा० देवेन्द्र प्रसाद पाण्डेय एसो०प्रोफेसर मा०चि० ग०वि०वि० चित्रकूट,	राजपत्रित अधिकारी	61 चित्रकूट	3	9479423544
4	डा बी.के उपाध्याय एसो. प्रोफे. चि. ग्रा. वि. वि. चित्रकूट	राजपत्रित अधिकारी	61 चित्रकूट	5	9425810169
5	डा के.के सिंह एसो. प्रोफे. चि. ग्रा. वि. वि. चित्रकूट	राजपत्रित अधिकारी	61 चित्रकूट	7	07898821557
6	डा. नन्दलाल मिश्रा एसो. प्रोफे. चि. ग्रा. वि. वि. चित्रकूट,	राजपत्रित अधिकारी	61 चित्रकूट	8	9584542852
7	श्री हरिशंकर कुशवाहा एसो. प्रोफे. चि. ग्रा. वि. वि. चित्रकूट	राजपत्रित अधिकारी	61 चित्रकूट	9	9415556330
8	श्री मनोज तिवारी अनु० अधि० कार्या जल संसाधन कोटर जिला सतना,	राजपत्रित अधिकारी	61 चित्रकूट	10	9827589588
9	श्री व्ही०एस० भदौरिया वनक्षेत्रपाल वनपरिक्षेत्र चित्रकूट	राजपत्रित अधिकारी	61 चित्रकूट	11	9981585664

10	डा. विजय सिंह परिहार एसो.प्रोफे .चि. ग्रा. वि. वि. चित्रकूट	राजपत्रित अधिकारी	61 चित्रकूट	22	9450167604, 9752233110
11	डा० ललित कुमार सिंह, एसो. प्रोफे चि. ग्रा. वि.वि. चित्रकूट,	राजपत्रित अधिकारी	61 चित्रकूट	23	9450225061
12	श्री अश्वनी दुग्गल एसो. प्रोफे .चि. ग्रा. वि. वि. चित्रकूट,	राजपत्रित अधिकारी	61 चित्रकूट	24	9179213049
13	श्री राममूर्ति एसो.प्रोफे .चि. ग्रा. वि. वि. चित्रकूट,	राजपत्रित अधिकारी	61 चित्रकूट	25	9451871351
14	डा. वीरेन्द्र उपाध्याय एसो. प्रोफे चि. ग्रा. वि.वि. चित्रकूट	राजपत्रित अधिकारी	61 चित्रकूट	26	9919910158
15	श्री बी०पी० त्रिपाठी प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सतना,	राजपत्रित अधिकारी	62 रैगांव	31	9424347860
16	श्री नीरव दीक्षित प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सतना	राजपत्रित अधिकारी	62 रैगांव	43	7974975564
17	श्री सुधांशु तिवारी सहायक यंत्री म०प्र० पदूषण नियंत्रण बोर्ड सतना,	राजपत्रित अधिकारी	63 सतना	54	9575643998
18	सुश्री तनुप्रिया कुशवाहा उप पंजीयक मैहर	तृतीय श्रेणी अधिकारी	63 सतना	62	9406777338
19	श्री.डी०सी० शर्मा० अनुभाग अधिकारी कार्या० अभि० (सं०/स०) म०प्र०पू०क्ष ०वि०वि०क०लि० सतना	राजपत्रित अधिकारी	63 सतना	63	9630161371
20	डा. पवन सिरोठिया एसोसिएट प्रोफेसर महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामो. विवि. चित्रकूट	राजपत्रित अधिकारी	63 सतना	65	9415637770
21	श्री सुरेन्द्र सिंह परियोजना अधिकारी जिला पंचायत सतना	राजपत्रित अधिकारी	63 सतना	69	9424313633

22	श्री राहुल सिंह पी0आई0यू0 पी0डब्लू0डी0 सिविल लाइन सतना	राजपत्रित अधिकारी	63 सतना	70	9039672813
23	श्रीमती संध्या सिंह जिला पजीयक सतना	राजपत्रित अधिकारी	63 सतना	72	9425890962
24	श्री प्रसन्न पाटकर, एसो0प्रोफे0 मा0चि0ग्रा0 वि0 वि0 चित्रकूट	राजपत्रित अधिकारी	64 नागौद	100	9793433488
25	डा. सिद्धार्थ शर्मा एसो. प्रोफे. मा.सि.ग्र. वि. वि. चित्रकूट	राजपत्रित अधिकारी	65 मैहर	105	9407858550
26	डा. रवीन्द्र सिंह एसो. प्रोफे. मा.सि.ग्र. वि. वि. चित्रकूट	राजपत्रित अधिकारी	65 मैहर	106	9425374744
27	श्री आंकार तिवारी सचिव कृषि उपज मंडी समिति मैहरसचिव कृषि उपज मंडी समिति मैहर	राजपत्रित अधिकारी	65 मैहर	109	9827360149
28	श्री आर0एस0 तिवारी, सहायक यंत्री लोक निर्माण विभाग मैहर,	राजपत्रित अधिकारी	65 मैहर	112	9424621018
29	श्री अखिलेश दीपांकर सी0डी0पी0ओ0 मैहर ,	राजपत्रित अधिकारी	65 मैहर	122	9202651661
30	श्री एस. के सिंह कार्यपालन यंत्री नगर निगम सतना,	राजपत्रित अधिकारी	65 मैहर	124	9893397087
31	श्री अरुण तिवारी प्रभारी कार्यपालन यंत्री नगर निगम सतना,	राजपत्रित अधिकारी	65 मैहर	126	9424763314
32	श्री समीर श्रीवास्तव सहा0 यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उचेहरा	राजपत्रित अधिकारी	65 मैहर	128	8770158516, 9407819985,
33	श्री विनय कुमार गुप्ता सहायक यंत्री नगर पालिक निगम सतना,	राजपत्रित अधिकारी	65 मैहर	129	9425334255
34	श्री राकेश मिश्रा प्राचार्य आई0टी0आई रामनगर	राजपत्रित अधिकारी	66 अमरपाटन	137	8120092436

35	श्री एम0आर0 पटेल परि0 अधि0 कार्यालय जिला पंचायत सतना	राजपत्रित अधिकारी	67 रामपुर बघेलान	164	9111923312
36	डा. घनश्याम गुप्ता एसोसिएट प्रोफेसर	राजपत्रित अधिकारी	रिजर्व	—	9424361523
37	डा. उमा शंकर मिश्रा एसोसिएट प्रोफेसर	राजपत्रित अधिकारी	रिजर्व	—	
38	डा. सुधाकर प्रसाद मिश्रा , एसोसिएट प्रोफेसर	राजपत्रित अधिकारी	रिजर्व	—	9721032433
39	डा. चन्द्र प्रताप गूजर एसोसिएट प्रोफेसर	राजपत्रित अधिकारी	रिजर्व	—	
40	डा. अनिल कुमार अग्रवाल एसोसिएट प्रोफेसर	राजपत्रित अधिकारी	रिजर्व	—	7235898340
41	श्री रवी चौरे,एसोसिएट प्रोफेसर	राजपत्रित अधिकारी	रिजर्व	—	9425884284
42	डा. अजय चौरे,एसोसिएट प्रोफेसर	राजपत्रित अधिकारी	रिजर्व	—	9981538132
43	डा. राजेश कुमार त्रिपाठी एसोसिएट प्रोफेसर	राजपत्रित अधिकारी	रिजर्व	—	